



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072023-247141
CG-DL-E-08072023-247141

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2869]
No. 2869]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2023/आषाढ़ 16, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2023/ASHADHA 16, 1945

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

का.आ. 2994(अ).—अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे यहां पर इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन, भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 451 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2004 द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन तारीख 2 अप्रैल, 2004 को अंतर-राज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और निर्णय तारीख 30 दिसंबर, 2010 को प्रस्तुत कर दिया है;

और, केंद्रीय सरकार और पक्षकार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा उनसे संबंधित निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण को तारीख 29 मार्च, 2011 को भेज दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को आगे की रिपोर्ट तारीख 29 मार्च, 2011 को या उससे एक वर्ष पूर्व, भेजना अपेक्षित था;

और, उक्त अधिकरण के अनुरोध पर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समय-समय पर अधिसूचना संख्यांक का.आ. 653 (अ), तारीख 29 मार्च, 2012, का.आ. 2339 (अ), तारीख 28 सितंबर, 2012, का.आ. 916 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2013, का.आ. 2939 (अ), तारीख

27 सितंबर, 2013, का. आ. 3515 (अ) तारीख 27 नवंबर, 2013 द्वारा 31 जनवरी, 2014 तक आगे बढ़ाई गई थी जिसे जल संसाधन मंत्रालय के तारीख 5 फरवरी, 2014 के आदेश द्वारा तारीख 31 जुलाई, 2014 तक बढ़ाई गयी थी, अधिसूचना संख्या का.आ. 1290(अ), तारीख 15 मई, 2014, का.आ. 2462(अ), तारीख 18 जुलाई, 2016 का.आ. 2459 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2017; का.आ. 3950 (अ), तारीख 9 अगस्त, 2018 और का.आ. 3146(अ), तारीख 29, अगस्त 2019 और का.आ. 2412 (अ), तारीख 23 जुलाई, 2020 और का.आ. 2890(अ), तारीख 20 जुलाई, 2021 द्वारा बढ़ा दी गई थी;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार को अपनी आगे की रिपोर्ट की तारीख 29 नवंबर, 2013 को अग्रेषित कर दी;

और, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन, अधिकरण द्वारा रिपोर्ट अग्रेषित किये जाने के पश्चात् और केंद्रीय सरकार को यह संतुष्टि होने पर कि भविष्य में इस संदर्भ में अधिकरण की आगे की मामले में आवश्यकता नहीं होगी, केंद्रीय सरकार अधिकरण का यथाशीघ्र विघटन कर देगी;

और, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 89 में यह उपबंध किया गया है कि कृष्णा जल विवाद अधिकरण की अवधि उक्त धारा के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधनों के साथ बढ़ाई जायेगी;

और, केंद्रीय सरकार ने, अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 2916 (अ), तारीख 27 जून, 2022 द्वारा तारीख 1 अगस्त, 2022 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाई गई थी ताकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधनों का निदान किया जा सके;

और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत करने के लिए अवधि को तारीख 1 अगस्त, 2023 से तारीख 31 मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, अंतर-राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 1 अगस्त, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाती है।

[फा. सं. एन.-57012/1/2021-बी.एम.]

आनंद मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2023

S.O. 2994(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereafter in this notification referred to as the said Tribunal) was constituted on the 2nd April, 2004 *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereafter in this notification referred to as the said Act), for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;

And, whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on 30th December, 2010;

And, whereas, the Central Government and the Party States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra preferred their respective references to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act on 29th March, 2011;

And, whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on or before one year from 29th March, 2011;

And, whereas, on the request of the said Tribunal, the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act was extended from time to time *vide* notifications number S.O 653(E),

dated the 29th March, 2012, S.O. 2339 (E), dated the 28th September, 2012, S.O. 916 (E), dated the 2nd April, 2013, S.O. 2939 (E), dated the 27th September, 2013, S.O. 3515(E), dated the 27th November, 2013 up to the 31st January, 2014, which was further extended up to 31st July, 2014, *vide* Ministry of Water Resources order dated 5th February, 2014, S.O. 1290 (E), dated the 15th May, 2014, S.O. 2462 (E), dated the 18th July, 2016, S.O. 2459 (E), dated the 31st July, 2017, S.O. 3950 (E), dated the 9th August, 2018, S.O. 3146 (E), dated the 29th August, 2019, S.O. 2412 (E), dated the 23rd July, 2020, and S.O. 2890 (E), dated the 20th July, 2021;

And, whereas, the said Tribunal forwarded to the Central Government its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 29th November, 2013;

And, whereas, under section 12 of the said Act, the Central Government shall dissolve the Tribunal after it has forwarded its report and as soon as the Central Government is satisfied that no further reference to the Tribunal in the matter would be necessary;

And, whereas, section 89 of the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014 (6 of 2014) provides that the term of the Krishna Water Disputes Tribunal shall be extended with the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of the said section;

And, whereas, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, the Central Government extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 1st August, 2022 so as to address the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of section 89 of the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014 *vide* notification of the Government of India, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, in the Ministry of Jal Shakti, number S.O. 2916 (E), dated the 27th June, 2022;

And, whereas, the said Tribunal has requested to extend the period of submission of report and decision for a further period with effect from the 1st day of August, 2023 to 31st day of March, 2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the Krishna Water Disputes Tribunal for a further period with effect from the 1st day of August, 2023 to 31st day of March, 2024.

[F. No. N-57012/1/2021-BM]

ANAND MOHAN, Jt. Secy.